



DRAFT INDIAN STANDARD IN WIDE CIRCULATION

Reference : TED 27 (16227)

Date : 24 February 2022

TECHNICAL COMMITTEE : Electric And Hybrid Vehicles, TED 27

To,

All concerned

Dear Madam/Sir,

The following document has been prepared by the Electric And Hybrid Vehicles Sectional Committee, TED 27. Please [click here](#) to view the document.

Document Number : TED 27 (16227) WC

Title of the document : HYBRID ELECTRIC VEHICLES OF M & N CATEGORY WITH GVW > 3500 KG – TEST FOR TYPE APPROVAL

Document Type : New Indian Standard

This document has following salient features which may require specific attention for your valuable comments:

1) HYBRID ELECTRIC VEHICLES OF M & N CATEGORY WITH GVW > 3500 KG – TEST FOR TYPE APPROVAL

Please examine the document and share your comments regarding further improvement in the document.

Last date for sharing the comments is : 25 April 2022

The comments should be shared in the prescribed template through this portal only; and the comments so received shall be taken up by the Sectional Committee for necessary action. For any other query, please write an email at ted@bis.gov.in to the undersigned at Bureau of Indian Standard, Manak Bhawan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.

In case no comments are received, we would presume your approval of the documents. However, in case we receive

any comments on the document, the same shall be put up to the Sectional Committee for necessary action.

Thanking You,

Yours faithfully,
(RAJEEV RANJAN SINGH)
Head (Transport Engineering Department)
Email: ted@bis.gov.in



व्यापक परिचालन में मसौदा(दे)

हमारा सन्दर्भ : TED 27 (16227)

दिनांक : 24-02-2022

तकनीकी समिति : Electric And Hybrid Vehicles Sectional Committee, TED 27

प्राप्तकर्ता : रूचि रखने वाले सभी निकाय

महोदय/या,

निम्नलिखित मसौदा तैयार किया गया है :

प्रलेख संख्या : TED 27 (16227) WC

शीर्षक : HYBRID ELECTRIC VEHICLES OF M & N CATEGORY WITH GVW > 3500 KG – TEST FOR TYPE APPROVAL

कृपया इस/इन मानक(को)/संशोधन(नो) के मसौदे(दो) का अवलोकन करें और अपनी सम्मतियाँ यह बताते हुए भेजें कि यदि ये मानक(को) के संशोधन(नो) के रूप में प्रकाशित हो तो इन पर अमल करने में आपके व्यवसाय अथवा कारोबार में क्या कठिनाइयां आ सकती हैं।

सम्मतियाँ भेजने की अंतिम तिथि : 25 April 2022

सम्मतियाँ, यदि कोई हों तो, कृपया यहाँ क्लिक करके ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऊपर दी गयी अंतिम तिथि तक दर्ज कराएं।

यह/ये प्रलेख भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइट www.bis.gov.in पर भी उपलब्ध है/हैं।

धन्यवाद।

भवदीय/भवदिया,
विभाग प्रमुख का नाम : RAJEEV RANJAN SINGH
(Transport Engineering Department)
ई-मेल : ted@bis.gov.in